



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1978/आश्विन 8, 1900
No. 286] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1978/ASVINA 8. 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1978

सा०का०नि० 477(अ).—महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एतद्वारा नागपट्टनम बम्बरगाह
पर अपुरावशेषों के निर्यात के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन करते हैं। इस समिति
में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- | | |
|---|-----------------|
| (1) अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दक्षिणी मंडल | संयोजक |
| (2) अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मन्दिर सर्वेक्षण
परियोजना (दक्षिण) | वैकल्पिक संयोजक |
| (3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तंजौर, तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग | सदस्य |

(4) श्री के० प्रार० श्रीनिवासन, 3, वरदराज परुमल कोएल स्ट्रीट,
मिचिनापल्ली

सदस्य
(नैर-सरकारी)

[सं० 6/1/77-पुरा०]

म० न० देशपाण्डे, महानिदेशक
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण एवं पर्वत संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1978

G.S.R. 477(E).—The Director General, Archaeological Survey of India hereby constitutes an 'Experts Advisory Committee for export of non-antiquities' at Nagapattinam Port. The Committee shall consist of the following :

- (1) The Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India,
Southern Circle Convener
- (2) The Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India,
Temple Survey Project (South) Alternate Convener
- (3) The Registering Officer, Tanjore, Tamil Nadu State Government
of Archaeology Member
- (4) Shri K. R. Srinivayan 3, Varadaraja Perumal Koil Street, Tri-
chinopoly Member
(non-official)

[No. 6/1/77-Ant.]

M. N. DESHPANDE, Director General
Archaeological Survey of India
and Ex-Officio Joint Secretary